

दिनांक 21 जून 2022 को शासकीय महात्मा गांधी स्नातकोत्तर महाविद्यालय खरसिया के प्रांगण में प्रोफेसर्स, कर्मचारीगण एवं एनसीसी कैडेट्स के द्वारा सामूहिक योगाभ्यास किया गया।





Kharsia, Chhattisgarh, India
X4H6+GWW, Thakurdiya, Kharsia, Chhattisgarh 496661, India
Lat 21.978583°
Long 83.112187°
21/06/22 09:04 AM

GPS Map Camera



Kharsia, Chhattisgarh, India
X4H6+GWW, Thakurdiya, Kharsia, Chhattisgarh 496661, India
Lat 21.978573°
Long 83.112187°
21/06/22 09:04 AM

GPS Map Camera



MG Go
Scienc

Kharsia, Chhattisgarh, India
X4H6+GWW, Thakurdiya, Kharsia, Chhattisgarh 496661, India
Lat 21.978607°
Long 83.112138°
21/06/22 09:03 AM

GPS Map Camera



GPS Map Camera

MG Go
Scienc



Kharsia, Chhattisgarh, India

X4H6+GWW, Thakurdiya, Kharsia, Chhattisgarh 496661, India

Lat 21.978664°

Long 83.112203°

21/06/22 08:02 AM



MG Go
Scienc

Kharsia, Chhattisgarh, India
X4H6+GWW, Thakurdiya, Kharsia, Chhattisgarh 496661, India
Lat 21.978567°
Long 83.11218°
21/06/22 09:04 AM

GPS Map Camera



MG Ge
Science

Kharsia, Chhattisgarh, India

X4H6+GWW, Thakurdiya, Kharsia, Chhattisgarh 496661, India

Lat 21.978602°

Long 83.112124°

21/06/22 09:03 AM

GPS Map Camera



Kharsia, Chhattisgarh, India
X4H6+GWW, Thakurdiya, Kharsia, Chhattisgarh 496661, India
Lat 21.978677°
Long 83.112142°
21/06/22 08:26 AM

GPS Map Camera



दैनिक जशपुरान्चल

संक्षिप्त समाचार



शासकीय महाविद्यालय महात्मा गांधी कॉलेज में मनाए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस

खरसिया (जशपुरान्चल)। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में 21 जून को प्रातः 7:00 बजे से शासकीय महाविद्यालय महात्मा गांधी कॉलेज खरसिया में मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कॉलेज परिसर अंदर में प्रातः 7:00 क्रीडा अधिकारी कुमारी कुश मूर्ति जांगड़े के द्वारा पूरे महाविद्यालय के विद्यार्थी एवं स्टाफ गण ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया कुमारी जांगड़े ने महाविद्यालय के समस्त स्टाफ को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर बेहतर स्वास्थ्य के लिए योग को बेहतर बताया है हमारे आदिकाल से पुराणों में भी योग को विशेष महत्व दिया गया है वही अभी के भागदौड़ की जिंदगी में लोग योग में कम आकर्षित हो रहे हैं लेकिन शासन प्रशासन योग पर विशेष जोर दिया जा रहा है वही कुमारी जांगड़े द्वारा महाविद्यालय के सभी स्टाफ एवं विद्यार्थी को प्राणायाम सूर्य नमस्कार लोम विलोम और तरह-तरह के योगासन सिखाया गया अपने घरों में प्रतिदिन योग करने की अपील भी की गई जिससे एक स्वस्थ जिंदगी जिया जा सके एवं योग स्वस्थ जीवन का आधार है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर उपस्थित वरिष्ठ प्राध्यापक पी एल पटेल क्रीडा अधिकारी कुमारी कुश मूर्ति जांगड़े एवं महाविद्यालय के समस्त स्टाफ एवं छात्र छात्राओं के द्वारा योगाभ्यास किया गया तथा निरंतर अपने अपने घरों में योग करने की अपील भी की गई आदि।